



# एक भारत श्रेष्ठ भारत

## Aaj Ka Vakya

Let's learn one sentence every day in 22 different Indian Languages

25. You can get fresh flowers from the shop in the next lane.

<b>ASSAMESE</b>	ইয়াৰ পিছৰ বাটটোত থকা দোকানখনৰ পৰা আপুনি সতেজ ফুল কিনিব পাৰিব।	Iyaar pisar baattot thakaa dokaankhanar paraa aapuni xhatez phul kinibo paaribo.
<b>BENGALI</b>	পরের গলিতে তুমি দোকানে টাটকা ফুল পেতে পারো।	Porer golite tumi tatka ful pete paro.
<b>BODO</b>	বৈ মনসে লামানি গলায়াব নোঁ থাজা বিবার মোননো হাগোন ।	Bwi mwense lamani golayao nwnng thaja bibar mwnnw hagwn.
<b>DOGRI</b>	तुसेंगी अगली गली च हट्टी दा ताजे फुल्ल थोई जांगन।	Tusengi agli gali ch hatti da taaje ful thoi jangan.
<b>GUJARATI</b>	આગળની ગલીની દુકાનેથી તમને તાજા ફૂલ મળી શકશે.	Aagalani galini dukaanethi tamane taanja phool malee shakashe.
<b>HINDI</b>	आपको अगली गली में दुकान से ताजे फूल मिल सकते हैं।	Aapko agli gali me dukan se taze phool mil sakte hain.
<b>KANNADA</b>	ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ನೀವು ತಾಜಾ ಹೂಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.	Mundina rastheya angadiinda neevu taza huvugalannu padeyabahudu.
<b>KASHMIRI</b>	توہ بیکن دویمہ گلی ہند وانہ پیٹہ تازہ پوش میلثہ	Tuhi hekan ami wani peth taazi posh meelith.
<b>KONKANI</b>	तुमच्यांनी ताजीं फुलां फुडल्या गल्लींतल्या दुकानांतल्यान विकत घेवं येता.	Tumchyani taaji fulaa fudlya gallitlya dukanatlyan vikat ghev yeta.
<b>MAITHILI</b>	अहाँके अगिला गली के दोकान सँ ताजा फुल भेटि सकत।	Ahanke agila gali ke dokan sa taza fool bheti sakat.
<b>MALAYALAM</b>	താങ്കൾക്ക് അടുത്ത ഇടവഴിയിലെ കടയിൽ നിന്നും നല്ല പൂക്കൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും .	Thaangalkku adutha idavazhiyile kadayil ninum nalla pookkal vaangan saadhikkum.

<b>MANIPURI</b>	মথংগী লম্বী অসিদা লৈবা দুকান অমদগী নহাকা লৈ ফংগনি।	Mathanggi lambi asida leiba dukan amadagi nahakna lei fanggani.
<b>MARATHI</b>	आपणास पुढील गल्लीतील दुकानात ताजी फुले मिळू शकतील.	Aapnas pudhil galliteel dukanaat taaji phule milu shakteel.
<b>NEPALI</b>	तपाईं अर्को गल्लीको पसलबाट नयाँ फूलहरू पाउन सक्नुहुनेछ।	Tapai arko galliko pasalbata naya full haru paunaa saknuhuncha.
<b>ODIA</b>	ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଳିରେ ଥିବା ଦୋକାନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଜା ଫୁଲ ମିଳିଯିବ.	Parabarti gali re thiba dokaanaru aapananku taja phula milijiba.
<b>PUNJABI</b>	ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗਲੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ੇ ਫੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।	Tusin agli gali waali dukaan ton taaze fal lai sakde ho.
<b>SANSKRIT</b>	अग्रिम-उपपथः हट्टकात् भवान् नवानि कुसुमानि प्राप्तुं शक्नोति।	Agrim-upapathah hattakaat bhawaan navaani kusumaani praptum shaknoti.
<b>SANTALI</b>	নিযৌ সামাং রেনা: গলিরেগে আম দ রিতৌ বাহাম ঞ্গাম দাড়েয়া:আ।	Niya samang goli rege amda rita baham njam dareyag-a.
<b>SINDHI</b>	توهان پر ۾ ايل لين واري دڪان مان تازا گل حاصل ڪري سگهو ٿا.	Tavhaan bhar men aayal lane oare dukan man taaza gul haasil kre sagho tha.
<b>TAMIL</b>	அடுத்த வீதியில் உள்ள கடையில் புதிதாக வந்துள்ள மலர்களைப் பெறலாம்.	Aṭutta vītiyil uḷḷa kaṭaiyil putitāka vantulla malarkaḷaip peralām.
<b>TELUGU</b>	పక్క సందులో దుకాణంలో మీకు తాజా పూలు లభిస్తాయి.	Pakka sandulo dukAnam lo meeku tAja PUlu labhistAyi.
<b>URDU</b>	اگلی گلی سے آپ کو تازہ پھول مل سکتے ہیں۔	Agli gali se aap ko phool mil saktey hain.